

व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र Personal Details Format

आवेदन संख्या Application No- _____ पद का नाम Name of the Post _____

विज्ञापन संदर्भ संख्या Ref: Advt. No. : एनपीसीआईएल/एचआरएम/2018/04
NPCIL/HRM/2018/04

हाल ही में खींचा गया
पासपोर्ट आकार का फोटो
लगाएं व उस पर एक सिरे
से दूसरे सिरे तक जाता
हुआ हस्ताक्षर करें Affix
recent Passport size
Photograph & Sign
Across

1. पूरा नाम Name in full : _____
(स्पष्ट अक्षरों में in Block Letters)
2. जन्म की तारीख Date of Birth : _____
3. वैवाहिक स्थिति Marital Status : _____
4. राष्ट्रियता Nationality : _____
5. पता Address
(यदि बदला हो तो If any change) :
(a) वर्तमान पता Present Address (b) स्थायी पता Permanent Address

(b) टेली.सं. Tel. No. (आवास R) : _____ (कार्या. O) _____
मोबाइल सं. Mobile No. : _____ ई-मेल आईडी E-Mail ID: _____

6. एनपीसीआईएल/परमाणु ऊर्जा विभाग या इसकी इकाइयों में कार्यरत रिश्तेदार कर्मचारी का विवरण:

Details of relatives employed in NPCIL/Department of Atomic Energy or its constituent Units.

रिश्तेदार (रिश्तेदारों) का नाम Name of Relative (S)	संबंध Relationship	किस इकाई में नियोजित हैं Unit in which Employed	धारित पद Post Held	

7. (a) क्या अभ्यर्थी ने केंद्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या अन्य संगठन में सेवा की है/कर रहे है ?
Whether the candidate has ever served/is serving in the Central/State Government/PSU or any other organization? हां Yes/ नहीं No
- (b) यदि हां तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें If yes please furnish the following details:-

संगठन का नाम Name of the Organization	धारित पद Post Held	कब से From	कब तक To	कार्य-उत्तरदायित्व Responsibilities

- 8 (a) क्या अभ्यर्थी ने विज्ञापन सं. एनपीसीआईएल/एचआरएम/2018/04 के सम्मुख आवेदन के पश्चात कोई पाठ्यक्रम से अध्ययन कर रहे है। Whether candidate is pursuing any course of studies after submitting his / her application against the Advt. No HRM/2018/04.

हां Yes

नहीं No

यदि हां तो कृपया निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें If yes please furnish the following details:-

पाठ्यक्रम का नाम Name of the Course	पाठ्यक्रम की अवधि Duration of the Course	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था का नाम Name of the College/University/Institution	अध्ययन का प्रकार Mode of study

9. अपने निकट संबंधियों को छोड़कर, कृपया अपने स्थानीय क्षेत्र के ऐसे दो जिम्मेदार व्यक्तियों का विवरण दें जो आपको जानते हैं:-

Please furnish the below details of two responsible persons of your locality or two references to whom you are known (other than your close family members).

(a) नाम Name _____ (b) नाम Name _____

व्यवसाय Occupation _____

व्यवसाय Occupation _____

कार्यालयी पता Off. Address _____

कार्यालयी पता Off. Address _____

आवासीय पता Res. Address _____

आवासीय पता Res. Address _____

टेली. सं. Tel No. _____

टेली. सं. Tel No. _____

मोबाइल Mob. No. _____

मोबाइल Mob. No. _____

घोषणा Declaration

1. मैं, एतद्द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी व विश्वास के अनुसार उपर्युक्त कथन सत्य है।
I hereby declare that all the above statements are true to the best of my knowledge and belief.
2. मुझे ज्ञात है कि उपर्युक्त सूचना के अपूर्ण व गलत पाए जाने पर किसी भी चरण में मेरी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।
I am aware that my candidature is liable to be rejected at any stage if the information given above is incomplete or incorrect.

तारीख Date : _____ हस्ताक्षर Signature : _____
स्थान Place : _____ नाम Name : _____

